

वार्षिकांक 6

वर्ष 2013

# कृषि किरण



केन्द्रीय मृदा ल्वणता अनुसंधान संस्थान  
करनाल - 132 001 भारत




## अजैविक तनाव (स्ट्रेस) सहिष्णु पादप विकास में नवोन्मेषी उपलब्धियाँ एवं सीमाएँ

जोगेन्द्र सिंह, अश्यनी कुमार, विजयता सिंह एवं पूजा<sup>1</sup>

केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा)

<sup>1</sup>गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, करनाल (हरियाणा)

पर्यावरणीय तनावों के प्रभावों के कारण वैशिक खाद्य उत्पादकता विपरीत प्रवृत्ति को दर्शाती है। इनमें प्रमुख रूप से लवणता, सूखा और शीत तनाव आदि समस्याएँ सम्मिलित हैं, जो कि पादप विकास एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है (रिखा चित्र 1)। यास्तव में ये अजैविक तनाव समुच्चे विश्व में फसलों की विफलता एवं 50 प्रतिशत से अधिक औसत पैदावार घटाने का कारण है। बढ़ती हुई खाद्य जरूरतों को पूरा करने हेतु इस हानि को कम से कम करना सभी देशों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पौधों में अजैवीय तनावों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।



**पौधों में तनाव सहिष्णुता बढ़ाने के लिए उपयोगी रणनीतियाँ :**

पौधों में अजैवीय तनावों के प्रति सहिष्णु तंत्र विकसित करने हेतु विभिन्न रणनीतियों की उपयोगिता, संकेत एवं विनियामक की अभिव्यक्ति करने वाले मार्ग, तनाव सहिष्णु



रेखा चित्र 2. पौधों में तनाव सहिष्णुता बढ़ाने के लिए उपयोगी रणनीतियाँ


प्रोटीन संश्लेषण (प्रोटीन भ्रूणोत्पत्ति प्रभूत (लिया) प्रोटीन या कार्यात्मक एवं संरचनात्मक चयापचयों का संश्लेषण करने वाले जीनों पर निर्भर करती है (रिखा चित्र 2)। वर्तमान प्रयास आनुवंशिक परिवर्तन द्वारा तनाव सहिष्णुता तंत्र में सुधार की ओर अग्रसर हैं।

### पौधों में अजैविक तनाव सहिष्णुता कार्यप्रणाली

पौधों में पर्यावरणीय तनाव के प्रति अनुकूलन एक आणविक संजाल-प्रपात द्वारा नियंत्रित किया जाता है (रिखा चित्र 3)। ये संजाल-प्रपात तनाव के प्रति उत्तरदायी तंत्र को सक्रिय करके कोशिकीय स्थिरता को पुनः स्थापित करते हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त प्रोटीन एवं कोशिका झिल्ली की मरम्मत भी करते हैं। पादप अजैविक तनाव आनुवंशिक रूप से जटिल प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है, जोकि बहुजीन द्वारा नियंत्रित होता है। अतः इसके लिए सहिष्णु पादपों का विकास करना कठिन होता है।

### अजैविक तनाव सहिष्णु पादप विकास में नवोन्मेषी उपलब्धियाँ :

वर्तमान में पौधों में अजैविक तनाव सहिष्णुता कार्यप्रणाली एवं तनाव सहिष्णुता बढ़ाने के लिए उपयोगी रणनीतियों



रेखा चित्र 3. पौधों में अजैविक तनाव सहिष्णुता कार्यप्रणाली

के आण्विक स्तर पर अध्ययन के परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण जींस खोजे गए हैं। तालिका 1 में एग्रोबैक्टेरियम के माध्यम से आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण फसलों में बढ़ी अजैविक तनाव सहिष्णुता का सिंहावलोकन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इन जीनों के माध्यम से लवण सहिष्णु धान, सूखा सहिष्णु तम्बाकू, गेहूं व धान, शीत रोधी टमाटर इत्यादि की किस्में विकसित की गई हैं।

**अजैविक तनाव सहिष्णु पादप विकास की सीमाएं :** इस तंत्र की आनुवंशिक जटिलता ही सहिष्णुता सुधार कार्यक्रम को अत्यंत कठिन बना देती है।

#### तालिका 1 : फसलों में अजैविक तनाव सहिष्णुता का विवरण

जीन	ज्ञात	प्रोत्साहक	प्रोत्साहक की उर्ध्वता	तनाव सहिष्णुता
बी.एन.सी.बी.एफ. 5 व 17	द्रै. नेपल	35 एस.सी.ए.एन.बी.	द्रै. नेपल	शीत
सी.बी.एफ.1	जरविडोमिस्ट	ए.बी.आर.सी.	जी. टनाट	द्रुतशीतन धानी की कमी और तापमान
बाईडिं एच.एस.एफ.9	सूरजमुखी	झी.एस.-10	सूरजमुखी तम्बाकू	अधिक तापमान
एस.एन.ए.सी.11	धान	35 एस.सी.ए.एन.बी.	धान	सूखा और तापमान
ओस ली.ओ.आई.एन.	धान	35 एस.सी.ए.एन.बी.	धान	सूखा, तापमान और शीत
ए.बी.एफ.3	जरविडोमिस्ट	युविव्युविन	नवका सलाद	सूखा और शीत

- समाप्त -